



July 11, 2020

The Manager
National Stock Exchange of India Ltd
Listing Department
Exchange Plaza, 5th Floor, Plot no C/1
G Block, Bandra Kurla Complex
Bandra (E), Mumbai-400 051
To,
Sr. General Manager,
Listing Operations,
BSE Limited,
P.J. Towers, Dalal Street,
Mumbai – 400 001.

The Manager
Calcutta Stock Exchange Ltd
7, Lyons Range, Kolkata – 700 001]

Scrip Code: NSE – EMAMILTD; BSE- 531162 and CSE - 018136

Dear Sir/Madam,

Re.: Submission of Newspaper publication of Post Buyback Public Announcement in relation to completion of buyback equity shares of Emami Limited (“ the Company”) in terms of Securities and Exchange Board of India (Buy Back of Securities) Regulations, 2018 as amended (“Buy-back Regulations”) through open market using the Stock Exchange Mechanism (“Buy-Back”).

In continuation to our letter dated Thursday, July 9, 2020 with respect to closure of buyback of equity shares, please find enclosed, copies of publications of public advertisement in the following newspapers on Saturday, July 11, 2020:

Publication	Language	Editions
Business Standard	English	All editions
Business Standard	Hindi	All editions
Arthik Lipi	Bengali	Kolkata edition

The Company has published post Buy-back public advertisement on Saturday, July 11, 2020 in terms of Regulation 24(vi) of the Buy-back Regulations for the closure of Buy-back from the closing of the trading hours of Thursday, July 9, 2020.

Please find enclosed, herewith copies of Post Buy-back Public Advertisement published in above mentioned newspapers on Saturday, July 11, 2020.

The above information will also be made available on the website of the Company i.e. www.emamiltd.in.

We request you to kindly take above on the records.

Sincerely,

For and on behalf of Emami Ltd

Authorized Signatory

Name: A.K.Joshi

Designation: Company Secretary & V P -Legal

Email ID: akjoshi@emamigroup.com

Contact No.: 03366136611

regd. office: 687 anandapur e. m. bypass kolkata 700107 India

phone: 91 33 6613 6264 tele fax: 91 33 6613 6600 e-mail: contact@emamigroup.com website: www.emamiltd.in

CIN: L63993WB1983PLC036030

PUBLIC NOTICE

TAKE NOTICE THAT we on behalf of our client Mrs. NERUDEVI JAVERIAL BHANSALI residing at her Ownership Flat No. 21 Navijvan CHS Ltd building No. 7A, 6TH Floor, Lamington Road, Mumbai - 400008. Registration No. BOM/WHD/HSG/TC-366 of 84-85 bearing Plot C.S. No. 255 Tardeo Division and having share certificate 5 shares ordinary membership share distinctive number from 6351 to 6365 Certificate bearing No. 1443 (hereinafter referred to as the said Ownership Flat") giving the above PUBLIC NOTICE.

On 06-03-1998 Our client Mrs. NERUDEVI JAVERIAL BHANSALI along with her husband Mr. JAVERIAL DALICHAND BHANSALI were jointly purchased above their residence premises from the previous owner SHRI KISHANCHAND GOKULDAS JHANGIANI by way of Agreement for sale. The above Agreement for sale got notorised before NOTARY advocate Shri M. H. Chowdhary Regd No. 8058 Mum/MAH.

On 01-07-2013 the Society has transferred share certificate in name of our client and her husband joint name ledger folio no 389, inward approved, dated 25/08/2013 and approved in M.C held on 29/03/2013.

On 05/10/2012 our client Mrs. NERUDEVI JAVERIAL BHANSALI husband had donated his 60% share /title rights in the name of our client name by way of registered GIFT DEED bearing No.MUM/18525/2012 and accordingly, On 29/03/2013 the society has transferred share certificate in our client name.

Our client has lost/misplaced the original title documents, Agreement for sale Deed therefore On 04/07/2013 our client husband Shri JAVERIAL DALICHAND BHANSALI has lodged police complaint with Nagpada Police station Mumbai for lost/and misplace original title deed in respect of their above residence flat. The Nagpada Police station has issued PRAMANPATARA in lieu of missing original Agreement for sale document. Any person found or having in their possession the title document original Agreement for sale either now or in the future are directed to contact the undersigned in respect of the same.

Dated This 11th day of July, 2020

Sd/-

MANOJ JAISWAL AND ASSOCIATES
Advocates, High Court
Office No. 140, 3rd floor, 23 Great Western Building, MCC Lane, Kala Ghoda, Fort, Mumbai-400001.
Mobile no 9323261034
Email:- advmp@indiaslawyer.com

Punjab & Sind Bank
137/139, Kazi Sayed Street, Masjid Bunder, Mumbai - 400 003

ATTENTION TO CUSTOMER

We wish to inform you that from **Tuesday 14th July, 2020** our Masjid Bunder branch is going to shift from **:137/139, Kazi Sayed Street, Masjid Bunder, Mumbai - 400 003** to our **New Address : Shop No. 93/95, Ground Floor, Sugar House Premises Co-op Soc Ltd., Kazi Sayed Street, Masjid Bunder, Mumbai - 400 003.**

Customer are requested to please visit the new place of business for their banking needs. We look forward to welcome you at the new premises.

Sd/-
Authorised Officer

GRAUER & WEIL (INDIA) LTD.

Regd. Office : Growl Corporate, Akurdi Road, Kandivli - East, Mumbai - 400101.
Tel. : 022-68993000,
Fax : 022-68993010,
email : sekretarial@growl.com
Website : www.growl.com
CIN : L74999MH1957PLC010975

NOTICE

Pursuant to Regulation 47(1) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Notice is hereby given that a Meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Friday, July 17, 2020, inter alia, to consider and approve the Audited Financial Results of the Company for the Quarter and Year ended March 31, 2020 and to recommend Final Dividend, if any.

This information is also available on the Website of the Company and on the Website of Stock Exchange (www.bseindia.com).

For Grauer & Weil (India) Ltd.
Sd/-
Niraj Kumar M

Date : 09/07/2020 Managing Director
Place : Mumbai (DIN : 00113191)

PUBLIC NOTICE**TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN**

This is to inform the general public that following share certificate(s) of E. Power India Ltd., Having its registered office International V, floor, 16 Marine Lines Cross Road No. 1, Off Maharashtra Karve Road, Churchgate, Mumbai-400 020 registered in the names of the following share holder(s) has/have been lost by the registered holders.

Folio No.	Name of the Holder(s)	Certificate No.	Dist. From	Dist. To	Cert. Shares
S0030427		1718763	4233511	4233660	50
S0030427		1718764	4233556	4233610	50
S0030427		1718765	4233611	4233660	50
S0030427		1718766	4233661	4233710	50
S0030427		1718767	4233711	4233760	50
S0030427		1718768	4233761	4233810	50
S0030427		1718769	4233811	4233860	50
S0030427		1718770	4233861	4233910	50
S0030427		1718771	4233911	4233960	50
S0030427		1718772	4233961	4234010	50
S0030427		1718773	4234011	4234060	50
S0030427		1718774	4234061	4234110	50
S0030427	Shrikant	1718775	4234111	4234160	50
S0030427	R. Bhat	1718776	4234161	4234210	50
S0030427	Usha	1718777	4234211	4234260	50
S0030427	Bhat	1718778	4234261	4234310	50
S0030427		1718779	4234311	4234360	50
S0030427		1718780	4234361	4234410	50
S0030427		1718781	4234411	4234460	50
S0030427		1718782	4234461	4234510	50
S0030427		1718783	4234511	4234560	50
S0030427		1718784	4234561	4234610	50
S0030427		1718785	4234611	4234660	50
S0030427		1718786	4234661	4234710	50
S0030427		1718787	4234711	4234760	50
S0030427		1718788	4234761	4234810	50
S0030427		1718789	4234811	4234860	5
S0030427		1718790	4234861	4234910	1
TOTAL					1286
S0030428		178791	4234771	4234826	50
S0030428		178792	4234827	4234876	50
S0030428	Shrikant	178793	4234877	4234886	10
S0030428	R. Bhat	178794	4234887	4234896	10
S0030428	Usha	178795	4234897	4234901	5
S0030428	Bhat	178796	4234902	4234902	1
S0030428		178797	4234903	4234903	1
S0030428		178798	4234904	4234904	1
S0030428		178799	4234905	4234905	1
TOTAL					129

The public are hereby cautioned against purchasing or dealing in any way with the above referred share certificate(s). Any persons has/have any claim in respect of the said share certificate(s) should lodge such claim with the company or its registrar and transfer agents Kfin Technologies Pvt Ltd., Karvy Selenium Tower, B Plot No. 31-32, Gachibowli, Financial District, Hyderabad-500 032 within 15 days of publication of this notice, after which no claim will be entertained and the company may proceed to issue duplicate share certificates to the registered holders.

Place: Mumbai
Date: 10.07.2020
Rameshwar Mehta

emami* limited

CIN: L63993WB1983PLC036030

Registered Office: 687, Anandapur E M Bypass, Kolkata-700107, West Bengal.

Tel. No.: +91-033-66136264; Fax No.: +91-033-66136600; Website: www.emamiltd.in; Email: investors@emamigroup.com;

Company Secretary and Compliance Officer: Mr. A.K. Joshi, Company Secretary & VP-Legal

POST BUYBACK PUBLIC ADVERTISEMENT REGARDING COMPLETION OF BUYBACK OFFER IN COMPLIANCE WITH REGULATION 24(VI) OF THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (BUY-BACK OF SECURITIES) REGULATIONS, 2018, AS AMENDED, FOR THE ATTENTION OF THE EQUITY SHAREHOLDERS/ BENEFICIAL OWNERS OF THE EQUITY SHARES OF EMAMI LIMITED**This post buyback public advertisement ("Advertisement") is made pursuant to the regulation 24(vi) of Securities and Exchange Board of India (Buy-Back of Securities) Regulations, 2018, for the time being in force including any statutory modifications and amendments from time to time ("Buyback Regulations"). This Advertisement should be read in conjunction with the public announcement published on Saturday, March 21, 2020 ("PA") issued in connection with the Buyback.**

The capitalized terms and abbreviations used in this Advertisement shall have the same meaning as ascribed to them in the PA, unless otherwise specified.

1. The Buy Back

1.1. The Board of Directors of the Company (the "Board") which expression shall be deemed to include any committee constituted by the Board and/or officials, which the Board may constitute/authorise to exercise its powers, including the powers conferred by the board resolution, the Board at its meeting held on Thursday, March 19, 2020 ("Board Meeting"), approved the buyback of fully paid-up equity shares of the face value of INR 1/- (Indian Rupee One Only) ("Equity Shares") of the Company, each from its shareholders/beneficial owners (other than those who are promoters, members of the promoter group or persons in control), from the open market through stock exchange mechanism for an aggregate amount not exceeding INR 19,199.43 lacs (Indian Rupees One ninety one crore ninety nine lacs and forty three thousand only) ("Maximum Buyback Size"), and at a price not exceeding INR 300/- (Indian Rupees three hundred Only) per Equity Share ("Maximum Buyback Price"), payable in cash (the process being referred hereinafter as "Buyback"). The Maximum Buyback Size and Maximum Buyback Price do not include brokerage, costs, fees, turnover charges, taxes such as securities transaction tax, goods and service tax (if any) and income tax, stamp duty and other incidental and related expenses (collectively referred to as "Transaction Costs").

1.2. The Buyback commenced on Friday, March 27, 2020 and closed on Thursday, July 9, 2020. Till the date of closure of Buyback, the Company has utilized a sum of ₹ 19,198.73 lacs (Rupees One ninety one crore ninety eight lacs seventy three thousand only) i.e. 99.9963% of Maximum Buyback Size (excluding transaction costs) with a balance of 0.70 lacs (Rupees Seventy thousand only).

1.3. In view of the fact that the Company has utilized a sum of ₹ 19,198.73 lacs (Rupees One ninety one crore ninety eight lacs seventy three thousand only) i.e. 99.9963% of Maximum Buyback Size (excluding transaction costs) with a balance of 0.70 lacs (Rupees Seventy thousand only) till Thursday, July 9, 2020, the Company has decided to close the Buyback on Thursday, July 9, 2020. Intimation for closure of the Buyback was issued to the Stock Exchanges on Thursday, July 9, 2020.

1.4. The total number of Equity Shares bought back under the Buyback is 94,21,498 (Ninety four lakh twenty one thousand four hundred and ninety eight).

2. Details of the Buyback

2.1. The Company bought back a total of 94,21,498 Equity Shares (2.08% of the pre-buyback paid-up equity share capital of the Company) and the total amount invested is INR 19,198.73 lacs (Rupees One ninety one crore ninety eight lacs seventy three thousand only) (excluding Transaction Costs), which represents 99.9963% of the Maximum Buyback Size. The price at which the Equity Shares were bought back was dependent on the price quoted on BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited, together referred to as "Stock Exchanges". The highest price at which the Equity Shares were bought back was INR 232.70 per Equity Share while the lowest price was INR 158.36 per Equity Share. These prices are based on contract notes issued by the Company's broker (IIFL Securities Limited) and exclude Transaction Costs. The total amount utilized in the Buyback is INR 19,198.73 lacs (excluding brokerage, transactional charges and taxes), which represents 99.9963% of the Maximum Buyback Size of INR 19,199.43 lacs (excluding brokerage, transactional charges and taxes).

2.2. The payout formalities have been completed as per settlement mechanism with the Stock Exchanges. The Company has extinguished 82,85,498 Equity Shares till date and is in the process of extinguishing the remaining 11,36,000 Equity Shares bought back.

2.3. The Equity Shares bought back were in the demat segment from the Stock Exchanges. As the Buyback was done from the open market through Stock Exchanges, the identity of the shareholders from whom Equity Shares exceeding one percent of the total Equity Shares bought in the Buyback is not known.

3. Capital Structure and Shareholding Pattern

3.1. The capital structure of the Company, pre Buyback i.e. as on March 20, 2020 (as mentioned in the PA) and post Buyback, is as under:

(INR in Lakhs)


Share Capital	Pre - Buyback (As mentioned in the PA)	Post Buyback (As on July 9, 2020)
Authorized		
50,00,00,000 (31.03.2018-25,00,00,000) Equity Shares of INR 1/- each	5,000.00	5,000.00
Issued Subscribed and Paid-up Capital		
45,39,35,238 Equity Shares of INR 1/- each fully paid up	4,539.35	-
44,45,13,740 Equity Shares of INR 1/- each fully paid up*	-	4,445.14*

* The Company is in the process of extinguishing the balance 11,36,000 Equity Shares out of the total of 94,21,498 Equity Shares bought back. The share capital post completion of the Buyback ("Post Buyback") is provided assuming extinguishment of all Equity Shares bought back by the Company.

3.2. The shareholding pattern of the Company, pre Buyback i.e. as on Thursday, March 19, 2020 (as mentioned in the PA) and post Buyback is as under:

SI Category of Shareholders	Pre Buyback (As mentioned in PA)		Post Buyback (As on July 9, 2020)	
	No. of Equity Shares held	% to the existing equity share capital	No. of Equity Shares held*	% of the post Buyback equity share capital*
A. Promoter and Promoter Group	23,93,93,412	52.74%	23,93,93,412	53.86%
B. Public Shareholders				
Institutions	17,22,37,118	37.94%	20,51,20,328	46.14%
Non Institutions	4,23,04,708	9.32%		
Central Government/State Government(s)/President of India	-	0.00%		
Sub Total	21,45,41,826	47.26%		
C. Non Promoter - Non Public				
TOTAL	45,39,35,238	100.00%	44,45,13,740	100.00%

* The Company is in the process of extinguishing the balance 11,36,000 Equity Shares out of the total of 94,21,498 Equity Shares bought back. The Post Buyback shareholding pattern is provided assuming extinguishment of all Equity Shares bought back by the Company.

4. Manager to the Buyback

IIFL SECURITIES LIMITED

10th Floor, IIFL Centre, Kamala Mills, Senapati Bapat Marg, Lower Parel (West), Mumbai 400 013

Tel. No.: +91 22 4646 4600; Fax No.: +91 22 2493 1073;

Email: emami.buyback@iiflcap.com; Website: www.iiflcap.com;

Investor grievance e-mail: ig.ih@iiflcap.com;

SEBI Registration No.: INM00010940

Contact persons: Pinak Bhattacharyya/Nishita Mody

CIN: L99999MH1996PLC132983

For further details, please refer to the Company's website (www.emamiltd.in) and the websites of the Stock Exchanges (i.e. www.bseindia.com and www.nseindia.com).

5. Directors' Responsibility

As per Regulation 24(i)(a) of the Buyback Regulations, the Board of Directors of the Company, in their capacity as directors, accept full and final responsibility for all the information contained in this Advertisement and confirms that the information included herein contains true, factual and material information and does not contain any misleading information.

For and on behalf of the Board of Directors of Emami Ltd

Sd/-

Sd/-

Sd/-

Name: S.K. Goenka

Name: Mohan Goenka

Name: A. K Joshi

Designation:

Designation:

Designation:

Managing Director

Executive Director

Company Secretary & VP-Legal and Compliance Officer

DIN: 00149916

DIN: 00150034

Membership No: FCS 4976

Place : Kolkata

Date : July 10, 2020

KABRA EXTRUSIONTECHNIK LTD.

Fortune Terraces, 10th Floor, B Wing, Opp. Citi Mall, Link Road, Andheri (West), Mumbai - 400053, Maharashtra, India.
Tel: +91-22-26734822 / 231 Fax No: +91-22-26735041
Email: ket_sd@kolsitegroup.com | Website: www.kolsite.com | CIN : L28900MH1982PLC028535

Extract of Standalone & Consolidated Audited Financial Results for the Quarter and Financial Year ended March 31, 2020 (Rupees in lakhs)

Sr. No.	Particulars	Standalone				Consolidated						
		Quarter ended 31-Mar-20	Quarter ended 31-Dec-19	Quarter ended 31-Mar-20	Quarter ended 31-Mar-19	Quarter ended 31-Mar-20	Quarter ended 31-Dec-19	Quarter ended 31-Mar-19	Quarter ended 31-Mar-19			
1.	Total income from Operations	5,585.40	6,633.75	9,890.26	22,018.99	24,514.19	5,585.40	6,633.75	9,890.26	22,018.99	24,514.19	
2.	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	141.90	513.51	2,005.02	628.98	3,085.98	141.90	513.51	2,005.02	628.98	3,085.98	
3.	Net Profit / (Loss) for the period before Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	141.90	513.51	2,005.02	628.98	3,085.98	139.93	505.40	1,999.75	623.29	3,076.04	
4.	Net Profit / (Loss) for the period after Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	76.39	583.47	1,638.74	747.09	2,447.21	74.42	575.37	1,633.47	741.40	2,437.28	
5.	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	(1,131.74)	360.04	1,863.26	(814.66)	2,064.86	(1,133.72)	351.94	1,857.99	(820.35)	2,054.93	
6.	Equity Share Capital	1,595.12	1,595.12	1,595.12	1,595.12	1,595.12	1,595.12	1,595.12	1,595.12	1,595.12	1,595.12	
7.	Reserves (excluding Revaluation Reserves) as per balance sheet of previous accounting year	-	-	-	21,686.00	23,077.56	-	-	-	21,620.12	23,017.37	
8.	Earnings Per Share (Face value of Rs. 5/- each) (Basic & Diluted) - not annualised	1. Basic	0.24	1.83	5.14	2.34	7.67	0.23	1.80	5.12	2.32	7.64
	2. Diluted	0.24	1.83	5.14	2.34	7.67	0.23	1.80	5.12	2.32	7.64	

Notes:

1) The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and SEBI circular No. CIR/CFD/FAC/62/2016 dated 5 July 2016. The full format of the Quarterly Financial Results and Explanatory Notes are available on the Stock Exchange websites at www.bseindia.com, www.nseindia.com and on the company's website at www.kolsite.com

2) The above Results have been reviewed and recommended by the Audit Committee & approved by the Board of Directors at its Meeting held on 9th July 2020.

For and on behalf of the Board
KABRA EXTRUSIONTECHNIK LTD.

Sd/-
S. V. Kabra

(Chairman & Managing Director) (DIN: 00015415)

4 विविध समाचार

रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स से करीब अर्धक

भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड
 (रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत भारत सरकार का एक उद्यम)
 (CIN: L32309KA1984G0100787)
 पंजीकृत कार्यालय, आउटर रिंग रोड, नारायण, गंगार - 560 045
मंडल की बैठक की सूचना
 एतद्वारा सूचना दी जाती है कि येनी विनियम, 2015 (यूबीसीए की बाध्यताएं तथा प्रकटीकरण की अपेक्षाएँ) के विनियम, 47 के अनुवर्तन में अन्य विषयों के साथ-साथ 30 जून, 2020 को समाप्त तिमाही के लेखा अपरिचित स्टैंडअलोन तथा संशुद्ध वित्तीय परिणामों पर विचार तथा अनुमोदन करने हेतु कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक सोमवार, दिनांक 27 जुलाई, 2020 को आयोजित होगी।
 यह सूचना कंपनी की वेबसाइट www.bel-india.in पर और स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट www.bseindia.com और www.nseindia.com पर भी उपलब्ध है।
 कृते भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड
 हस्ता/ -
 एस श्रीनिवास
 कंपनी सचिव
 स्थान - बंगलूर
 दिनांक- 10-07-2020
 'हर एक काम देश के नाम'

मकानों की बिक्री 66 प्रतिशत घटी

भारत के शीर्ष 9 शहरों में कैलेंडर वर्ष 2020 की दूसरी तिमाही में आवासीय इकाइयों की बिक्री में 66 प्रतिशत की गिरावट आई है। प्रॉप इक्विटी की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2020 की पहली तिमाही में 62,851 मकानों की बिक्री हुई थी, जो 2020 की दूसरी तिमाही में घटकर 21,294 यूनिट रह गई।

भारत स्वच्छ ऊर्जा का आकर्षक बाजार

श्रेया जय
 नई दिल्ली, 10 जुलाई

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मध्य प्रदेश के रीवा में 750 मेगावॉट के अल्ट्रा मेगा सोलर पावर पार्क का शुभारंभ किया। रीवा सौर बिजली संयंत्र को एशिया की सबसे बड़ी सौर बिजली परियोजनाओं में से एक कहा जा रहा है। यह योजना जनवरी 2020 में चालू हुई थी और इससे मध्य प्रदेश और दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन को बिजली की आपूर्ति होगी। इस परियोजना की बोली 2017 में हुई थी और तीन कंपनियों महिंद्रा रिन्यूएबल, एमई सोलर और स्प्रिंग एनर्जी को 250-250 मेगावॉट का ठेका मिला था। इन परियोजनाओं के लिए बोली हासिल करने का शुल्क पहले साल के लिए 2.97-

2.98 रुपये प्रति यूनिट था और 2.5 साल के ठेके के लिए 3.32 रुपये प्रति यूनिट भाव था। इस बोली में जो शुल्क सामने आया, पहली बार यह भारत में ताप बिजली के मूल्य से नीचे था। परियोजना की कुल लागत 4,305 करोड़ रुपये है। यह परियोजना 1,550 हेक्टेयर में बनी है। रीवा पार्क में कम दर पर बोली लगने की एक वजह यह थी कि राज्य सरकार ने बिजली खरीद का आश्वासन दिया था और खरीद में चूक होने पर सांवरिन गारंटी की पेशकश की थी। शुभारंभ के मौके पर एक वरचुल कॉन्फ्रेंस में मोदी ने कहा कि रीवा परियोजना इस पूरे इलाके को इस दशक में शुद्ध एवं स्वच्छ ईंधन के केंद्र के रूप में बदल देगी। प्रधानमंत्री ने कहा, 'सौर ऊर्जा परियोजना आत्मनिर्भर भारत की सही प्रतिनिधि है। आत्मनिर्भरता और प्रगति का



मध्य प्रदेश के रीवा में स्थित 750 मेगावॉट क्षमता की सौर परियोजना को राष्ट्र को समर्पित करने के मौके पर शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नई दिल्ली में बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी **-पीटीआई**

सौर ऊर्जा उपलब्धि

- महिंद्रा रिन्यूएबल, एमई सोलर और स्प्रिंग एनर्जी के रीवा पार्क में 250-250 मेगावॉट क्षमता के संयंत्र
- रीवा पार्क पहली सौर ऊर्जा परियोजना है, जिसमें बिजली की दरों की बोली ताप बिजली से कम आई
- मोदी ने कहा कि रीवा परियोजना इलाके को शुद्ध एवं स्वच्छ ईंधन के केंद्र के रूप में बदल देगी

स्वदेशी वस्तुओं व उपकरणों के माध्यम से भारत में सौर ऊर्जा की वृद्धि में अहम भूमिका निभाने की अपील की। उन्होंने कहा, 'भारत सौर संयंत्रों में इस्तेमाल होने वाले उपकरणों जैसे फोटोवोल्टाइक सेल, बैटरी टेक्नोलॉजी के आयात पर निर्भरता घटा रहा है। मैं चाहता हूँ कि उद्योग, युवा, एमएसएमई और स्टार्टअप इस अवसर को चूकें नहीं और सौर ऊर्जा में इस्तेमाल होने वाले सभी इनपुट के उत्पादन के लिए काम करें।' इस साल जनवरी में रीवा परियोजना की सभी इकाइयों परियोजना में आ गई थीं। डीएमआरसी दिन की बिजली की जरूरतों के लिए इस परियोजना से 2019 से ही बिजली ले रहा है। पार्क से उत्पादित कुल बिजली का 24 प्रतिशत डीएमआरसी लेगा। शेष बिजली मध्य प्रदेश सरकार लेगी।


emami limited
 CIN: L63999WB1983PLC036030
 Registered Office: 687, Anandapur E M Bypass, Kolkata-700107, West Bengal.
 Tel. No.: +91-033-66136264; Fax No.: +91-033-66136600; Website: www.emamiltd.in; Email: investors@emamigroup.com;
 Company Secretary and Compliance Officer: Mr. A.K. Joshi, Company Secretary & VP-Legal

POST BUYBACK PUBLIC ADVERTISEMENT REGARDING COMPLETION OF BUYBACK OFFER IN COMPLIANCE WITH REGULATION 24(VI) OF THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (BUY-BACK OF SECURITIES) REGULATIONS, 2018, AS AMENDED, FOR THE ATTENTION OF THE EQUITY SHAREHOLDERS/BENEFICIAL OWNERS OF THE EQUITY SHARES OF EMAMI LIMITED

This post buyback public advertisement ("Advertisement") is made pursuant to the regulation 24(vi) of Securities and Exchange Board of India (Buy-Back of Securities) Regulations, 2018, for the time being in force including any statutory modifications and amendments from time to time ("Buyback Regulations"). This Advertisement should be read in conjunction with the public announcement published on Saturday, March 21, 2020 ("PA") issued in connection with the Buyback.

The capitalized terms and abbreviations used in this Advertisement shall have the same meaning as ascribed to them in the PA, unless otherwise specified.

- The Buy Back**
 - The Board of Directors of the Company (the "**Board**") which expression shall be deemed to include any committee constituted by the Board and/or officials, which the Board may constitute/authorise to exercise its powers, including the powers conferred by the board resolution, the Board at its meeting held on Thursday, March 19, 2020 ("**Board Meeting**"), approved the buyback of fully paid-up equity shares of the face value of INR 1/- (Indian Rupee One Only) ("**Equity Shares**") of the Company, each from its shareholders/beneficial owners (other than those who are promoters, members of the promoter group or persons in control), from the open market through stock exchange mechanism for an aggregate amount not exceeding INR 19,199.43 lacs (Indian Rupees One ninety one crore ninety nine lacs and forty three thousand only) ("**Maximum Buyback Size**"), and at a price not exceeding INR 300/- (Indian Rupees three hundred Only) per Equity Share ("**Maximum Buyback Price**"), payable in cash (the process being referred hereinafter as "**Buyback**"). The Maximum Buyback Size and Maximum Buyback Price do not include brokerage, costs, fees, turnover charges, taxes such as securities transaction tax, goods and service tax (if any) and income tax, stamp duty and other incidental and related expenses (collectively referred to as "**Transaction Costs**").
 - The Buyback commenced on Friday, March 27, 2020 and closed on Thursday, July 9, 2020. Till the date of closure of Buyback, the Company has utilized a sum of ₹ 19,198.73 lacs (Rupees One ninety one crore ninety eight lacs seventy three thousand only) i.e. 99.9963% of Maximum Buyback Size (excluding transaction costs) with a balance of 0.70 lacs (Rupees Seventy thousand only).
 - In view of the fact that the Company has utilized a sum of ₹ 19,198.73 lacs (Rupees One ninety one crore ninety eight lacs seventy three thousand only) i.e. 99.9963% of Maximum Buyback Size (excluding transaction costs) with a balance of 0.70 lacs (Rupees Seventy thousand only) till Thursday, July 9, 2020, the Company has decided to close the Buyback on Thursday, July 9, 2020. Intimation for closure of the Buyback was issued to the Stock Exchanges on Thursday, July 9, 2020.
 - The total number of Equity Shares bought back under the Buyback is 94,21,498 (Ninety four lacs twenty one thousand four hundred and ninety eight).
- Details of the Buyback**
 - The Company bought back a total of 94,21,498 Equity Shares (2.08% of the pre-buyback paid-up equity share capital of the Company) and the total amount invested is INR 19,198.73 lacs (Rupees One ninety one crore ninety eight lacs seventy three thousand only) (excluding Transaction Costs), which represents 99.9963% of the Maximum Buyback Size. The price at which the Equity Shares were bought back was dependent on the price quoted on BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited, together referred to as "Stock Exchanges". The highest price at which the Equity Shares were bought back was INR 232.70 per Equity Share while the lowest price was INR 158.36 per Equity Share. The Equity Shares were bought back at an average price of INR 203.78 per Equity Share. These prices are based on contract notes issued by the Company's broker (IIFL Securities Limited) and exclude Transaction Costs. The total amount utilized in the Buyback is INR 19,198.73 lacs (excluding brokerage, transactional charges and taxes), which represents 99.9963% of the Maximum Buyback Size of INR 19,199.43 lacs (excluding brokerage, transactional charges and taxes).
 - The payout formalities have been completed as per settlement mechanism with the Stock Exchanges. The Company has extinguished 82,85,498 Equity Shares till date and is in the process of extinguishing the remaining 11,36,000 Equity Shares bought back.
 - The Equity Shares bought back were in the demat segment from the Stock Exchanges. As the Buyback was done from the open market through Stock Exchanges, the identity of the shareholders from whom Equity Shares exceeding one percent of the total Equity Shares bought in the Buyback is not known.
- Capital Structure and Shareholding Pattern**
 - The capital structure of the Company, pre Buyback i.e. as on March 20, 2020 (as mentioned in the PA) and post Buyback, is as under:


Share Capital	(INR in Lakhs)	
	Pre - Buyback (As mentioned in the PA)	Post Buyback (As on July 9, 2020)
Authorized 50,00,00,000 (31.03.2018-25.00.00,00,000) Equity Shares of INR 1/- each	5,000.00	5,000.00
Issued Subscribed and Paid-up Capital 45,39,35,238 Equity Shares of INR 1/- each fully paid up	4,539.35	-
44,45,13,740 Equity Shares of INR 1/- each fully paid up*	-	4,445.14*

* The Company is in the process of extinguishing the balance 11,36,000 Equity Shares out of the total of 94,21,498 Equity Shares bought back. The share capital post completion of the Buyback ("Post Buyback") is provided assuming extinguishment of all Equity Shares bought back by the Company.

SI/ Category of Shareholders	Pre Buyback (As mentioned in PA)		Post Buyback (As on July 9, 2020)	
	No. of Equity Shares held	% to the existing equity share capital	No. of Equity Shares held*	% of the post Buyback equity share capital*
A. Promoter and Promoter Group	23,93,93,412	52.74%	23,93,93,412	53.86%
B. Public Shareholders			}>20,51,20,328	46.14%
Institutions	17,22,37,118	37.94%		
Non Institutions	4,23,04,708	9.32%		
Central Government/State Government(s)/President of India	-	0.00%		
Sub Total	21,45,41,826	47.26%		
C. Non Promoter - Non Public	-	0.00%		
TOTAL	45,39,35,238	100.00%	44,45,13,740	100.00%

* The Company is in the process of extinguishing the balance 11,36,000 Equity Shares out of the total of 94,21,498 Equity Shares bought back. The Post Buyback shareholding pattern is provided assuming extinguishment of all Equity Shares bought back by the Company.

4. Manager to the Buyback


IIFL SECURITIES LIMITED
 10th Floor, IIFL Centre, Kamala Mills, Senapati Bapat Marg, Lower Parel (West), Mumbai 400 013
 Tel. No.: +91 22 4646 4800; Fax No.: +91 22 2493 1073;
 Email: emami.buyback@iiflcap.com; Website: www.iiflcap.com;
 Investor grievance e-mail: ig_ib@iiflcap.com;
 SEBI Registration No.: INM000010940
 Contact persons: Pinak Bhattacharyya/Nishita Mody
 CIN: L99999MH1996PLC132983

For further details, please refer to the Company's website (www.emamiltd.in) and the websites of the Stock Exchanges (i.e. www.bseindia.com and www.nseindia.com).

5. Directors' Responsibility

As per Regulation 24((i)) of the Buyback Regulations, the Board of Directors of the Company, in their capacity as directors, accept full and final responsibility for all the information contained in this Advertisement and confirms that the information included herein contains true, factual and material information and does not contain any misleading information.

For and on behalf of the Board of Directors of Emami Ltd

Sd/-	Sd/-	Sd/-
Name: S.K. Goenka	Name: Mohan Goenka	Name: A. K Joshi
Designation: Managing Director	Designation: Executive Director	Designation: Company Secretary & VP-Legal and Compliance Officer
DIN: 00149916	DIN: 00150034	Membership No: FCS 4976

Place : Kolkata
Date : July 10, 2020

कर प्रोत्साहन कम किए जाने पर केंद्र को नोटिस

बीएस संवाददाता
 नई दिल्ली, 10 जुलाई

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के तहत क्षेत्र आधारित कर प्रोत्साहन कम किए जाने को लेकर अशोक लीलेंड की ओर से दायर की गई याचिका पर उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने केंद्र को नोटिस भेजा है। अशोक लीलेंड ने याचिका में कहा है कि उपाय शुल्क के दौर में क्षेत्र आधारित छूट के तहत 100 प्रतिशत छूट देने का वादा किया गया था, जबकि जीएसटी लागू होने पर लाभ घटा दिया गया और सिर्फ 58 प्रतिशत केंद्रीय जीएसटी और नकद लेजर के माध्यम से भुगतान किए जाने वाले 29 प्रतिशत एकीकृत जीएसटी का रिफंड दिया जा रहा है। याचिका ने प्रॉमिसरी एस्टॉपल और वैध अपेक्षा के आधार पर

योजना को चुनौती दी है। प्रॉमिसरी एस्टॉपल संविधा विधि का एक सिद्धांत है, जो किसी व्यक्ति को वादे से मुक्त करने से रोकता है, भले ही इस मामले में कोई कानूनी कंट्रैक्ट नहीं हुआ हो। उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वह इस मामले में जवाबी हलफनामा दाखिल करके स्थिति साफ करे। मामले की अगली सुनवाई 5 सप्ताह बाद होगी। इसके पहले ही कई याचियों ने इस सिलसिले में न्यायालय में याचिकाएं दायर की हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने इसके पहले इसी तरह की हीरो मोटोकॉर्प की एक याचिका पर सरकार के पक्ष में फैसला दिया था। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में नई औद्योगिक इकाइयों स्थापित करने पर 10 साल के लिए केंद्रीय उत्पाद शुल्क के भुगतान से छूट मिलती है।

भारत की ट्रेन-18 की दौड़ में चीनी कंपनी शामिल

शाइन जैकब
 नई दिल्ली, 10 जुलाई

भारत व चीन के संबंध ऐतिहासिक रूप से निचले स्तर पर हैं, वहीं पड़ोसी देश की सरकारी कंपनी सीआरआरसी चीन एकमात्र विदेशी कंपनी बनकर उभरी है, जो महत्वाकांक्षी ट्रेन-18 की वैश्विक बोली में हिस्सा लेने जा रही है। इसके साथ 5 अन्य भारतीय कंपनियां इस बोली में शामिल होंगी। सीआरआरसी कॉर्पोरेशन चीन की सरकारी रोलिंग स्टॉक विनिर्माता है। टेंडर में हिस्सा लेने वाली भारतीय कंपनियों में भारत

हैवी इलेक्ट्रिकल्स और हैदराबाद की मेधा ग्रुप शामिल हैं, जो 44 ट्रेन सेट के लिए प्रोपल्सन सिस्टम या इलेक्ट्रिक ट्रेन शान किट खरीदने का काम करेंगी, जो पहली ट्रेन-18 परियोजना का हिस्सा थीं। इसे वंदे भारत एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है जिसे 15 फरवरी 2019 को शुरू किया गया था। पहले रैक पर 100 करोड़ रुपये खर्च हुए थे, जिसमें से करीब 35 करोड़ रुपये प्रोपल्सन सिस्टम पर खर्च हुए थे।

इस हिसाब से देखें तो 44 ट्रेन सेट के लिए मौजूदा टेंडर 1,500 करोड़ रुपये से ज्यादा का है। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन विनोद कुमार यादव ने कहा, 'ट्रेन सेट टेंडर के लिए हमें 6 कंपनियों से बोली मिली है।' महत्वाकांक्षी रेल परियोजना के लिए जरूरी सामान खरीदने के लिए यह तीसरा टेंडर है। 43 ट्रेन की बोली में 18 सेट के लिए पहले आमंत्रण दिया गया, लेकिन सिर्फ 3 के लिए ऑर्डर

दिया गया, जिसमें स्पैनिश दिग्गज सीएफओ और मेधा ग्रुप शामिल थीं और उन्होंने पहली वंदे भारत ट्रेन की आपूर्ति की। इसके बाद दूसरा टेंडर 37 ट्रेन 18 प्रोपल्सन सिस्टम के लिए जारी हुआ, जिसे रद्द कर दिया गया। दिलचस्प है कि मौजूदा टेंडर में इस क्षेत्र की दिग्गज कंपनियों बॉम्बार्डियर, एलस्टम, सिमंस, सीएफओ, टालगो और मित्सुबिशी शामिल नहीं हैं। पूर्वी लद्दाख के गलवान घाटी में भारत और चीन के बीच हिंसक टकराव के बाद चीनी कंपनी इसमें हिस्सा लेने जा रही है। हिंसक झड़प के बाद रेलवे

ने चीन की कंपनी द्वारा 4017 किलोमीटर के कानपुर-दीन दयाल उपाध्याय सेक्शन के सिमलिंग-देलीकम्युनिकेशन के काम को रद्द कर दिया था। उद्योग के विशेषज्ञों का कहना है कि अगली ट्रेन 18 आने में कम से कम ढाई साल लग सकते हैं। इसका मतलब हुआ कि रेलवे में पोयुष गोयल ने संसद में 27 नवंबर को जो सूचना दी थी, उससे चूक होगी। गोयल ने संकेत दिए थे कि आईसीएफ में 2019-20 में 160 कोच, 2020-21 में 240 और 2021-22 में 240 कोच के उत्पादन की योजना है।

यूपी में बड़े पैमाने पर सैनटाइजर उत्पादन, 28 राज्यों को आपूर्ति

बीएस संवाददाता
 लखनऊ, 10 जुलाई

कोरोना संकट के दौर में उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर छोटे व मझोले उद्यमों ने सैनटाइजर का उत्पादन शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश की इकाइयों से इस समय देश में दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, उत्तराखंड सहित सभी 28 राज्यों को सैनटाइजर भेजा जा रहा है। बोते तीन महीनों में ही प्रदेश ने सैनटाइजर की बिक्री से 100 करोड़ रुपये से ज्यादा का राजस्व अर्जित किया है जो पूर्व में महज

दो करोड़ रुपये सालाना था। राज्य के आबकारी आयुक्त संजय भूषरेड्डी ने बताया कि कोरोना संकट के शुरू होने से पहले जहां प्रदेश में केवल एक ही कारखाने में सैनटाइजर का उत्पादन होता था वहीं अब यह तादाद बढ़कर 91 हो गई है। प्रदेश की इकाइयों में बनने वाले सैनटाइजर का 30 फीसदी से ज्यादा बाहरी राज्यों में भेजा जा रहा है। उन्होंने बताया कि बोते 4 महीनों में ही सैनटाइजर बनाने वाली कंपनियों ने 1.33 करोड़ लीटर उत्पादन किया है।

बीएस सूडोकू 3790 परिणाम संख्या 3789

			7	2	3	4
1						6
					8	1
	2					
9	2	4	5	3	6	8
8	5		9	1		
6			2	7		
	2		9	1		4
7	1	8			5	9
				2	8	1

3	5	8	4	2	1	9	7	6
9	1	6	7	5	8	3	4	2
2	4	7	6	3	9	5	1	8
5	7	9	2	8	3	1	6	4
1	3	4	9	6	7	8	2	5
8	6	2	5	1	4	7	3	9
6	8	1	3	4	5	2	9	7
4	9	3	8	7	2	6	5	1
7	2	5	1	9	6	4	8	3

कैसे खेलें? आसत
 हर, रो, कॉलम और 3 के बाई 3 के बॉक्स में एक से लेकर नौ तक की संख्या भरें।

क्षेत्रीय मंडियों के भाव	दिल्ली	उत्तर प्रदेश	राजस्थान	पंजाब	
बंद भाव रुपये प्रति क्विंटल	कालीमिर्च (किलो) 390/425, सुपारी (किलो) 370/410, सोन के मोटी 7500/10000, मंगरेल 17500/17800, चिरोली (किलो) 1000/1040, मखाना 440/600	कच्ची घानी वैट पेड (टीन) 1800/1900, सरसों खल 2150/2200, पामोलिन 1475/1500, वनस्पति घी (यूपी एकओआर) 1525/1550, अलसी 6100/6200, धनिया: लोकल 6700/6800, राजस्थान 7200/7400, बड़िया 9200/9800, हल्दी 7200/8000, जीरा 14800/18000, अजवायन 15500/20000, मेथी 4800/5200, मखाना 450/625, कालीमिर्च (किलो) 350/400, लालमिर्च (किलो) तेजा 165/180, (334) न. 145/150, सुपारी (किलो) केरल 300/330, कर्नाटक चिकनी 360/370, गोला 15500/17000	कोल्ड 1340/1460, शक्कर x, चीनी मिल डिली. (बिच.) (जीएसटी अतिरिक्त): खतौली 3400, सिरोहा x, थाना भवन 3365, बुझना 3365, शमली 3350, चीनी हॉजिटर 3600/3650	रसकट 7500/8000, मोच 8000/8400, उड़द मोगर 7600/7700, मोटा 8000/8200, चौला मोगर x, मोठ मोगर 7200/7300, मूंज दाल छिन्का देशी 8000/8500, मलका 6000/6100, अरहर 7000/7500, मटर दाल 6500/6600, चना दाल मीडियम 5000/5100, बोल्ड 5000/5100, दलहन: उड़द साबुत देशी 6500/6600, मटर सफेद 5900/6000,	हपुड़ आज बाजार बंद जायपुर गेहूँ 1900/1950, जौ 1300/1350, पोपकोन मछड़ी x, चार डिलीवरी (ऑलपेड) 3600/3650, चारामा 5500/5550, बाजरा (गुजरात) 1325/1375, बाजरा (जयपुर) 1325/1350, चना 4000/4100, काबली चना 4500/5500, मूंज 6600/6700, मोठ 6000/6100, राख 3600/3700, मूंजकीली 5000/5500, सांजाना 7000/7500, जीरा 14000/16500, मगज तरबूज 12000/12300, जयपुर दाल (जीएसटी अतिरिक्त): मूंज मोगर